



राज्य: आवेदित लोकसभा/राज्यसभा/ विधानसभा/अन्य

उम्मीदवार विवरण

(PERSONAL INFORMATION)

फार्म : SBP/1

नाम:

लिंग: जन्मतिथि:

फोन (मोबाइल):

लैंडलाइन:

ई-मेल:

शिक्षा (उच्तम) वर्ष:

अगर छात्र/छात्रा हैं तो कॉलेज का नाम:

पता:

.....

.....

.....

क्या आप किसी वंचित सामाजिक वर्ग से हैं ?.....

- एससी
- एसटी
- ओवीसी
- अन्य

वोटर लिस्ट में पार्ट नं: सीरियल नं:

विधानसभा: लोकसभा: राज्यसभा:

नोट: इस फॉर्म में जहां – जहां 'परिवार' सब्द का इस्तेमाल किया गया हैं उसका मतलब है जीवनसाथी (पति या पत्नी) और बच्चे (यदि आप अविवाहित हैं , तो माता – पिता भी शामिल हैं)

1. समाज सेवा – देश सेवा में आपकी अब तक की मुख्य गतिविधियाँ (इसे विस्तार से अलगकागज पर लिखकर इस फॉर्म के साथ सलंगन करें)

.....
.....
.....
.....

2. परिवार के सदस्यों का विवरणः |

3. क्या आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर किसी भी तरह का मुकदमा चल रहा है अथवा चला है या कोई एफ.आई.आर दायर हुई है ?

यदि हाँ तो विवरणः (इसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित प्रारूप में इस फार्म के साथ अलग से सलंगन करें)

7. आय के साधन एवं विवरण (स्वयं तथा परिवार के बारे में)

8. सम्पत्ति – विवरण (स्वयं तथा परिवार के बारे में)

9. आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं ?

.....
.....
.....
.....

10. आपको क्यों लगता है कि अन्य आवेदकों कि जगह आपको उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए ?

.....
.....
.....
.....

11. यदि आपको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता हैं तो आप क्या करेंगे ?

- निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे
 - किसी और पार्टी से टिकट के लिए प्रयास करेंगे
 - अन्य (विवरण लिखें)

.....

.....

12. आपको क्यों लगता हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे ?

13. आपके विचार से कौन – कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पाँच मुद्दे बताएं।

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

14. चुनाव जितने के लिए आपके छेत्र में आपकी क्या रणनीति होगी ? और इस रणनीति पर आपके अनुमान के अनुसार कितना खर्च आएगा ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

15. क्या आप आरक्षण के पक्षधर हैं ? हाँ/नहीं यदि हाँ तो क्यों ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

16. क्या आप स्कूल/कालेज में छात्रसंघ/छात्र परिषद् के पक्षधर हैं ? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो क्यों ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

17. क्या पार्टी वालंटियर्स के अतिरिक्त भी आपके साथ ऐसी टीम हैं जो चुनाव लड़ने में आपके साथ काम कर सके ? प्रत्येक विधानसभा में ऐसे वालंटियर्स की संख्या कितनी हैं ?

विधानसभा	वालंटियर्स कि संख्या

(इसकी लिस्ट बाद में नाम व फोन नंबर सहित प्रस्तुत करनी होगी)